

## INTERMEDIATE EXAMINATION – 2021 (ANNUAL)

Sub. Code :- 220

विषय कोड – 220

I.Com.

Model Set

Accountancy(OPT.)

पूर्णांक – 100

Full Marks -100

लेखाशास्त्र (ऐच्छिक विषय)

समय:- 3 घंटे 15 मिनट

Time:- 3 hours 15 minute

कुल प्रश्नों की संख्या:  $100 + 30 + 8 = 138$

Total No. of question :  $100 + 30 + 8 = 138$

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :-

### Instructions for the candidates :-

1. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.

2. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।

Figures in the right hand margin indicate full marks.

3. इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा निर्देशों के अनुपालन के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

15 minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the questions and follow the instructions carefully.

4. यह प्रश्न-पत्र दो खण्डों में है, खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।

This question paper has two section: **Section-A** and **Section-B**.

5. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर पत्रक में दिये गये सही वृत्त को नीले/काले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

In Section- A there are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated by the computer in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. Darken the circle with blue/ Black ball pen against the correct option on OMR Answer sheet provided to you. Do not use whitener/ Liquid/ Blade/ Nail etc. on OMR- Sheet, otherwise the result will be invalid.

6. खण्ड-ब में 30 लघुउत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड में 08 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिये 5 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है।

In Section-B, there are 30 short answer type questions, each question carries 2 marks, out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 Long Answer Type questions each question carries 5 marks, Out of which any 4 questions are to be answered.

7. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है।

Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

**Section- A (Objective Type Questions)**

**खण्ड-अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को OMR-शीट पर चिन्हित करें। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है।  $50 \times 1=50$

Question No.- 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions. You have to mark, your selected option, on the OMR-Sheet. Each question carries 1 (one) mark.  $50 \times 1=50$

1. पूँजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती हैं :
- A. आय-व्यय खाता में                      B. स्थिति विवरण में
- C. लाभ- हानी खाता में                      D. इनमें से कोई नहीं

All receipts of capital nature are shown in -

- A. Income and Expenditure A/c              B. Balance Sheet
- C. P. & L. A/c                                      D. None of these

2. अदत्त चन्दे को दिखाया जाता है : -
- A. सम्पत्ति भाग                                      B. दायित्व भाग में
- C. प्राप्ति भाग में                                      D. इनमें से कोई नहीं

Outstanding subscriptions are shown in -

- A. Assets Side                                      B. Liabilities Side

C. Receipt Side

D. None of these

3. निम्न में से कौन "लाभ न कमाने वाली संस्था" नहीं हैं ?

A. महाविद्यालय

B. खेलकूद क्लब

C. मारुति उद्योग

D. अस्पताल

Which of the following is not a "not- for profit organisation"? -

A. College

B. Sports Club

C. Maruti Udyog

D. Hospital

4. एक संस्था द्वारा प्राप्त चन्दा है -

A. पूँजीगत प्राप्ति

B. आयगत प्राप्ति

C. A और B दोनों

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Subscription received by an organisation is -

A. Capital Receipt

B. Revenue Receipt

C. Both A & B

D. None of the above

5. निम्न में से कौन- सा अलाभकारी संस्थान है?

A. बिहार अकादमिक परिशद्

B. टाटा स्टील

C. एयर इंडिया

D. जेट एयरवेज

Which of the following is a non-profitable organization?

A. Bihar Academic Council

B. Tata Steel

C. Air India

D. Jet Airways

6. एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क है—

A. आयगत प्राप्ति

B. पूँजीगत प्राप्ति

C. A और B दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

Life Membership fee received by a club is-

A. Revenue Receipt

B. Capital Receipt

C. Both A & B

D. None of these

7. गैर- व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसम्पत्तियों के आधिक्य को कहते हैं—

A. पूँजी निधि

B. सम्पत्ति

C. लाभ

D. शुद्ध लाभ

The excess of assets over liabilities in non- trading concerns is termed as:-

A. Capital Fund

B. Asset

C. Profit

D. Net Profit

8. चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चन्दे है —

A. आय

B. सम्पत्ति

C. दायित्व

D. इनमें से कोई नहीं

Subscription received in advance during the current year is:-

A. An Income

B. An Asset

C. A Liability

D. None of These

9. एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिये प्राप्त किया गया चन्दा माना जाना चाहिए:-

A. पूँजीगत प्राप्ति

B. आयगत प्राप्ति

C. सम्पत्ति

D. उपार्जित आय

Subscription received by a school for organizing annual function is treated as -

A. Capital Receipt

B. Revenue Receipt

C. Asset

D. Earned Income

10. एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है-

A. 50

B. 10

C. 15

D. 20

In an ordinary partnership, maximum number of partners can be-

A. 50

B. 10

C. 15

D. 20

11. निम्न में से कौन-सा लाभ नियोजन है?-

A. ऋण पर ब्याज

B. पूँजी पर ब्याज

C. वेतन

D. किराया

Which of the following is an appropriation of Profit? -

A. Interest of Loan

B. Interest on Capital

### C. Salary

### D. Rent

12. साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूँजी रखी जाती है –

- A. परिवर्तनशील आधार पर                      B. स्थायी आधार पर  
C. दोनों ही परिस्थितियों में                      D. इनमें से कोई नहीं

Partner's current account is prepared when capital of partners is maintained under -

- A. Fluctuating basis                      B. Fixed Basis  
C. In both the Situations                      D. None of These

13. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं हैं :

- A. वेतन पाने का                      B. कमीशन पाने का  
C. पूँजी पर ब्याज पाने का                      D. उपर्युक्त सभी

In the absence of partnership deed, Partners are not entitled to receive –

- A. Salaries                      B. Commission  
C. Interest on Capital                      D. All of the above

14. यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण की जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जायेगा ?

- A. 7 माह                      B. 6 माह  
C. 5 माह                      D. 6.5 माह

What time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn at the beginning of each month ?

A. 7 Months

B. 6 Months

C. 5 Months

D. 6.5 Months

15. जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है –

A- 6 1/2 महीने के लिए

B- 6 महीने के लिये

C. 5 1/2 महीने के लिए

D. 12 महीने के लिए

When times of withdrawals are not mentioned, interest on drawing is charged -

A. For 6 1/2 Months

B. For 6 Months

C. For 5 1/2 Months

D. For 12 Months

16. सझेदारों की पूँजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं?

A. केवल पूँजी खाते

B. केवल चालू खाते

C. दायित्व खाते

D. पूँजी और चालू खाते

Which account is opened when the capitals are fixed?

A. Only Capital Accounts

B. Only Current Accounts

C. Liability Accounts

D. Capital and Current Accounts

17. सझेदारों के आहरण पर ब्याज हैं –

A. व्यवसाय के लिये हानि

B. व्यवसाय के लिये लाभ

C. साझेदारों को लाभ

D. बैंक को हानि

Interest on drawing of the Partners is a -



- A. Loss to Business                      B. Profit to business  
C. Profit to Partners                      D. Loss to Banks

18. परिवर्तनशील पूँजी खाते को क्रेडिट किया जाता है—

- A. पूँजी पर ब्याज से                      B. वर्ष के लाभ से  
C. साझेदारों के पारिश्रमिक से                      D. उपर्युक्त सभी से

Fluctuating Capital account is credited with -

- A. Interest on capital                      B. Profit of the year  
C. Remuneration of partners                      D. All of the above

19. सझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है।

- A. फर्म का पुनर्गठन                      B. फर्म का समापन  
C. फर्म का एकीकरण                      D. इनमें से कोई नहीं

Change in the Partnership agreement result in -

- A. Reconstitution of Firm                      B. Dissolution of Firm  
C. Amalgamation of Firm                      D. None of these

20. तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है —

- A.  $1/2 : 1/3 : 1/6$                       B.  $4/9 : 1/3 : 2/9$   
C.  $1/3 : 1/3 : 1/3$                       D.  $1/2 : 1/4 : 1/4$

Equal Profit ratio of three Partners is-

- A.  $1/2 : 1/3 : 1/6$                       B.  $4/9 : 1/3 : 2/9$

C.  $1/3 : 1/3 : 1/3$

D.  $1/2 : 1/4 : 1/4$

21. ख्याति एक सम्पत्ति है -

A. व्यर्थ

B. मूर्त

C. मूल्य रहित

D. मूल्यवान

Goodwill is an asset -

A. Useless

B. Tangible

C. Worthless

D. Valuable

22. अधि- लाभ से आप क्या समझते हैं?

A. कुल लाभ / वर्षों की संख्या

B. औसत लाभ / सामान्य लाभ

C. भारित लाभ / क्रय वर्षों की संख्या

D. इनमें से कोई नहीं

What do you mean by super profit?

A. Total Profit/ No. of Years

B. Average Profit/ Normal Profit

C. Weighted Profit/ No. of Year's Purchase

D. None of these

23. एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है -

A. व्यवसाय बेचने पर

B. दायित्व के निर्धारण पर

C. सम्पदा के निर्धारण पर

D. इनमें से कोई नहीं

The valuation of Goodwill is not necessary in sole Trading-

A. On Selling the firm

B. On Estimation of Liabilities

C. On Estimation of Assets      D. None of these

24. साझेदार के पूँजी खाते को क्रेडिट किया जाता है।—

- A. पूँजी पर ब्याज से                      B. आहरण पर ब्याज से  
C. आहरण से                                D. हानि में हिस्सा से

The Partner's Capital Account is credited with-

- A. Interest on Capital                      B. Interest on Drawings  
C. Drawings                                    D. Share in Loss

25. नये साझेदार द्वारा नकद में लायी गयी ख्याति कहलाती है —

- A. सम्पत्ति                                      B. लाभ  
C. प्रीमियम                                    D. इनमें से कोई नहीं

Share of Goodwill brought in cash by the new partner is called -

- A. Assets                                        B. Profit  
C. Premium                                    D. None of these

26. दायित्व में कमी हैं —

- A. दायित्व                                      B. हानि  
C. व्यय                                         D. लाभ

Decrease in the liabilities is-

- A. Liability                                    B. Loss  
C. Expenses                                    D. Gain

27. एक नये साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तान्तरित किया जाता है—
- A. पुनर्मूल्यांकन खाता में                      B. पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में
- C. लाभ— हानी समायोजन खाते में    D. वसूली खाते में।

General Reserve at the time of admission of a new partner is transferred to -

- A. Revaluation A/c                                      B. Old partner's capital A/c
- C. Profit and Loss Adjustment A/c    D. Realization A/c
28. एक नये साझेदार के प्रवेश पर, सम्पत्तियों के मूल्यांकन में कमी को डेबिट किया जाता है—

- A. पुनर्मूल्यांकन खाता में                      B. परिसम्पत्ति खातों में
- C. पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में    D. इनमें से कोई नहीं

On the admission of a new Partner, the decrease in the value of assets is debited to -

- A. Revaluation A/c                                      B. Assets A/c
- C. Old partner's capital A/c                      D. None of these
29. एक साझेदार के अवकाश के समय, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तान्तरित किया जाता है—
- A. नये लाभ—हानि अनुपात में

- B. पूँजी के अनुपात में
- C. पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में
- D. इनमें से कोई नहीं

At the time of retirement of a partner, the amount of General Reserve is transferred to all Partner's capital accounts in-

- A. New Profit- sharing Ratio
- B. Capital ratio
- C. Old Profit- Sharing Ratio
- D. None of these

30. A, B, और C  $1/2 : 1/3 : 1/6$  के अनुपात में लाभ बँटते हैं। C अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात होगा :

- A. 2:1
- B. 2:3
- C. 3:2
- D. 1:2

A, B, and C are sharing profit in the ratio of  $1/2 : 1/3 : 1/6$  C retired Gaining ratio will be-

- A. 2:1
- B. 2:3
- C. 3:2
- D. 1:2

31. यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तान्तरित किया जाता है।

- A. ऋण खाते में
- B. पूँजी खाते में

C. बैंक खाते में D. उचन्त खाते में

If the retiring partner is not paid in full amount due to him immediately on retirement, the balance is transferred to -

A. Loan A/c B. Capital A/c

C. Bank A/c D. Suspense A/c

32. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के मध्य अपलिखित कर दिया जाता है –

A. नये लाभ विभाजन अनुपात में B. नये पूँजी के अनुपात में

C. लाभ प्राप्ति के अनुपात में D. इनमें से कोई नहीं

On retirement of a partner, his share of goodwill is written off among continuing partners in their -

A. New Profit Sharing Ratio B. New Capital Ratio

C. Gaining Ratio D. None of these

33. फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बाँटी जाती है।

A- प्रारंभिक पूँजी अनुपात में

B. अंतिम पूँजी अनुपात में

C. साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में

D. साझेदारों के नये लाभ विभाजन अनुपात में

Joint Life Policy amount received by a Firm is distributed in:-

- A. Opening Capital Ratio
- B. Closing Capital ratio.
- C. Old Profit Sharing Ratio of partners
- D. New Profit Sharing Ratio of partners

34. एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूँजी खाते में जमा किया जाता है—

- A. सिर्फ मृत साझेदार के
- B. मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के
- C. शेष बचे साझेदारों के उनके नये लाभ— विभाजन अनुपात में
- D. शेष बचे साझेदारों के उनके पुराने लाभ— विभाजन अनुपात में

On the death of a partner, the amount of joint Life Insurance Policy is credited to the capital Accounts of:-

- A. Only the deceased partner
- B. All partners including the deceased partner
- C. Remaining partners, in the new profit- sharing ratio
- D. Remaining partners in their old profit- sharing ratio

35. किसी साझेदार की मृत्यु पर सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूँजी खाते में जमा किया जाता है

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| A. मृतक साझेदार के | B. सभी साझेदार के      |
| C. बाकी साझेदार के | D. मात्र दो साझेदार के |

On the death of a partner, the profit on revaluation is transferred to capital A/c of.

- A. Deceased partner                      B. All Partners  
C. Remaining Partner                      D. Only two partners

36. x, y और z लाभ- हानी  $1/3 : 1/3 : 1/3$  अनुपात में बाटते हैं। z की मृत्यु हो जाती है। x और y का नया लाभ- अनुपात होगा:

- A.  $2/3 : 1/3$                                       B.  $1/2 : 1/2$   
C.  $1/4 : 3/4$                                       D.  $2/5 : 3/5$

X, Y and Z share profit and loss in the ratio of  $1/3 : 1/3 : 1/3$ , Z dies. New profit ratio of X and Y will be:-

- A.  $2/3 : 1/3$                                       B.  $1/2 : 1/2$   
C.  $1/4 : 3/4$                                       D.  $2/5 : 3/5$

37. किसी साझेदार द्वारा रु 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जायेगा-

- A. वसूली खाता                                      B. रोकड़ खाता  
C. साझेदार का पूँजी खाता                      D. दायित्व खाता

On taking responsibility of payment of a liability of Rs, 20,000 by a partner, the account credited will be-

- A. Realizations A/c                                      B. Cash A/c  
C. Partners capital A/c                                      D. Liability A/c



38. फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तान्तरित करेंगे—
- A. साझेदार के चालू खाते में                      B. बैंक खाते में  
C. वसूली खाते में                                      D. साझेदार के पूँजी खातों में

On dissolution of a firm, Bank Overdraft is transferred to -

- A. Partner's current A/c                      B. Bank A/c  
C. Realisation A/c                                      D. Partner's capital A/c

39. संचित लाभ और संचय का हस्तान्तरण किया जायेगा—

- A. वसूली खाते में                                      B. साझेदारों के पूँजी खाते में  
C. बैंक खाते में    D. इनमें से कोई नहीं

The accumulated profit and reserves are transferred to -

- A. Realisation A/c                                      B. Partner's capital A/c  
C. Bank A/C    D. None of these

40. फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है?

- A. रोकड़ खाता    B. साझेदारों की पूँजी खाता  
C. वसूली खाता    D. इनमें से कोई नहीं

On Dissolution of firm, loss on realization account is debited to which account ?

- A. Cash A/c    B. Partner's capital A/c  
C. Realisation A/c    D. None of these

41. साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम सम्पत्तियों को हस्तान्तरित किया जाता है—

- A. साझेदारों के पूँजी खाता में                      B. वसूली खाता में  
C. रोकड़ खाता में    D. साझेदारों के ऋण खाते में

At the time of dissolution of partnership firm fictitious assets are transferred to-

- A. Capital A/c of partners                                      B. Realisation A/c  
C. Cash A/c    D. Partner's loan A/c

42. फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन-सा खाता बनाना चाहिए?

- A. वसूली खाता    B. साझेदारों के पूँजी खाता  
C. रोकड़ या बैंक खाता    D. साझेदारों के ऋण खाता

On firm's dissolution which one of the following account should be prepared at the last?

- A. Realisation A/c    B. Partner's capital A/c  
C. Cash or Bank A/c    D. Partner's Loan A/c

43. यदि फर्म की कुल सम्पत्तियाँ रु 3,25,000 हो एवं कुल बाह्य लेनदार रु 45,000 हो तो साझेदारों की पूँजी की राशि होगी—

- A. रु 3,70,000    B. रु 2,80,000  
C. रु 3,00,000    D. इनमें से कोई नहीं

If the total assets of a firm are Rs. 3,25,000 and the total outside liabilities Rs. 45,000, then the amount of partner's capital will be-

- A. Rs. 3,70,000                      B. Rs. 2,80,000  
C. Rs. 3,00,000                      D. Rs. None of these

44. फर्म के विघटन पर, साझेदार के ऋण खाते को हस्तान्तरित करेंगे—

- A. वसूली खाते में                      B. साझेदार के पूँजी खाते में  
C. साझेदार के चालू खाते में                      D. इनमें से कोई नहीं

On dissolution of a firm, partner's loan account is transferred to-

- A. Realisation A/c                      B. Partner's capital A/c  
C. Partner's Current A/c                      D. None of These

45. न्यायालय द्वारा एक साझेदार को दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आयेगा ?

- A. न्यायालय द्वारा समापन                      B. अनिवार्य समापन  
C. किसी घटना के घटने की स्थिति में                      D. इनमें से कोई नहीं

Insolvency of a partner adjudicated by the court will come under which type of dissolution of a firm ?

- A. Dissolution by court  
B. Compulsory Dissolution  
C. On happening of certain Contingenies  
D. None of these

46. यदि रू 10 वाला समता अंश रू 12 पर निर्गमित किया जाता है, तो इसे कहा जाता है –

- A. सममूल्य पर निर्गमन  
B. अधिमूल्य पर निर्गमन  
C. कटौती पर निर्गमन  
D. इनमें से कोई नहीं

If equity share of Rs. 10 each is issued at Rs. 12 each, it is called:-

- A. Issued at par  
B. Issued at Premium  
C. Issued at Discount  
D. None of these

47. अंशों के निर्गमन पर अधिलाम का उपयोग किया जा सकता है—

- A. बोनस अंशों के निर्गमन के लिये  
B. लाभ वितरण के लिये  
C. सामान्य संचय में हस्तान्तरण के लिये  
D. ये सभी

Premium on issue of share can be used for-

- A. Issue bonus shares  
B. Distribution of Profit  
C. Transferring to general Reserve  
D. All these

48. दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है

- A. अधिकृत पूँजी  
B. निर्गमित पूँजी  
C. प्रार्थित पूँजी  
D. चुकता पूँजी

Total amount of liabilities side includes :

- A. Authorized Capital  
B. Issued Capital  
C. Subscribed Capital  
D. Paid- up Capital

49. अंश आवंटन खाता होता है :

- A. व्यक्तिगत खाता  
B. वास्तविक खाता  
C. नाममात्र खाता  
D. इनमें से कोई नहीं

Share Allotment account is-

- A. Personal A/c  
B. Real A/c  
C. Nominal A/c  
D. None of these

50. अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है?

- A. सम्पत्ति  
B. दायित्व  
C. दोनों  
D. इनमें से कोई नहीं

Premium on issue of shares is shown on which side of the balance sheet?

- A. Assets  
B. Liabilities  
C. Both  
D. None of these

51. ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है—

- A. स्थायी सम्पत्ति  
B. चालू सम्पत्ति  
C. वास्तविक सम्पत्ति  
D. कृत्रिम सम्पत्ति

Discount on issue of debentures is-

- A. Fixed Asset  
B. Current Asset  
C. Real Asset  
D. Fictitious Asset

52. कम्पनी के समापन पर ऋणपत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है—

- A. सबसे पहले  
B. सबसे बाद में  
C. समता पूँजी से पहले  
D. इनमें से कोई नहीं

On liquidation of a company principal amount of debentures is returned-

- A. First of all  
B. Last of all  
C. Before equity capital  
D. None of these

53. पेटेन्ट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ?

- A. चालू सम्पत्तियाँ  
B. तरल सम्पत्तियाँ  
C. अमूर्त सम्पत्तियाँ  
D. इनमें से कोई नहीं

Patents and copyrights fall under the category of-

- A. Current Assets  
B. Liquid Assets  
C. Intangible Assets  
D. None of These

54. लाभांश सामान्यतः दिया जाता है—

- A. अधिकृत पूँजी पर  
B. निर्गमित पूँजी पर  
C. प्रदत्त पूँजी पर  
D. याचित पूँजी पर

Dividend is usually paid-

- A. On Authorized capital  
B. On Issued capital  
C. On paid up capital

## D. On Called up capital

55. वितीय वितरणों के विश्लेषणों में शामिल होता है—

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. व्यापारिक खाता | B. लाभ—हानी खाता |
| C. आर्थिक चिट्ठा  | D. उपर्युक्त सभी |

Analysis of financial statement involve-

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| A. Trading A/c   | B. Profit & Loss A/c |
| C. Balance sheet | D. All of these      |

56. वितीय विश्लेषण उपयोगी है—

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| A. विनियोगकर्ता के लिये  | B. अंशधारियों के लिये |
| C. ऋणपत्रधारियों के लिये | D. उपर्युक्त सभी      |

Financial Analysis is useful-

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| A. For Investors         | B. For Shareholders |
| C. For Debenture holders | D. All of the above |

57. स्थायी सम्पत्तियों में शामिल होता है—

- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| A. रोकड़  | B. मशीनरी         |
| C. देनदार | D. पूर्वदत्त व्यय |

The term fixed assets include-

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| A. Cash    | B. Machinery        |
| C. Debtors | D. Prepaid Expenses |

58. निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है?

- A. विज्ञापन  
B. कार की बिक्री पर हानि  
C. वेतन  
D. वितरण व्यय

Which of the following is not operating expenses?

- A. Advertisement  
B. Loss on sale of car  
C. Salaries  
D. Distribution expenses

59. नकद बिक्री है—

- A. परिचालन क्रिया  
B. विनियोजन क्रिया  
C. वित्तीय क्रिया  
D. इनमें से कोई नहीं

Cash Sales is-

- A. Operating Activity  
B. Investing Activity  
C. Financing Activity  
D. None of these

60. प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमण है—

- A. रोकड़ का अन्तर्वाह  
B. रोकड़ का बहिर्वाह  
C. न अन्तर्वाह और न बहिर्वाह  
D. इनमें से कोई नहीं

Issue of shares in consideration of purchase of plant and machinery result into-

- A. Inflow of Cash  
B. Out flow of Cash  
C. Neither Inflow nor Outflow  
D. None of these



61. ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम है :

- |             |         |
|-------------|---------|
| A. सम्पत्ति | B. व्यय |
| C. दायित्व  | D. आय   |

Premium on Redemption of Debentures is :

- |              |             |
|--------------|-------------|
| A. Asset     | B. Expenses |
| C. Liability | D. Revenue  |

62. ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. व्यक्तिगत खाता | B. वास्तविक खाता |
| C. नाममात्र खाता  | D. उचन्ती खाता   |

Premium on redemption of debenture Account is a

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| A. Personal A/C | B. Real A/C     |
| C. Nominal A/C  | D. Suspense A/C |

63. शोधन कोष विनियोग है :

- |             |            |
|-------------|------------|
| A. आय       | B. व्यय    |
| C. सम्पत्ति | D. दायित्व |

Sinking Fund Investment is a/an :

- |           |                |
|-----------|----------------|
| A. Income | B. Expenditure |
| C. Asset  | D. Liability   |

64. ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः, के समय की जाती है:

- A. ऋणपत्रों के निर्गमन  
B. ऋणपत्रों के शोधन  
C. अपलेखन  
D. 10 वर्षों के पश्चात्

Premium on redemption of debentures is generally provided at the time of :

- A. Issue of debentures  
B. Redemption of Debentures  
C. Writing off  
D. After 10 years

65. एक आदमी ने प्रत्येक ₹100 वाले 1,000, 12 प्रतिशत ऋणपत्रों को 10 प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किया। 12 प्रतिशत है

- A. लाभांश की दर  
B. कर की दर  
C. ब्याज की दर  
D. इनमें से कोई नहीं

A company issued 1000, 12% debentures of ₹100 each at 10% premium. 12% stand for

- A. Rate of Dividend  
B. Rate of Tax  
C. Rate of interest  
D. None of these

66. स्थिति विवरण है :

- A. खाता  
B. विवरण  
C. A और B दोनों  
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Balance Sheet is a :

- A. Account  
B. Statement  
C. A and B both  
D. None of the above



- A. आय-व्यय खाते में  
B. स्थिति विवरण में  
C. लाभ-हानि खाते में  
D. इनमें से कोई नहीं

All receipts of capital nature are shown in:

- A. Income and Expenditure A/C  
B. Balance Sheet  
C. Profit and Loss A/C  
D. None of these

71. लम्बवत् विश्लेषण को कहा जाता है :

- A. अस्थिर विश्लेषण  
B. स्थिर विश्लेषण  
C. क्षैतिज विश्लेषण  
D. इनमें से कोई नहीं

Vertical Analysis is called :

- A. Fluctuation Analysis  
B. Static Analysis  
C. Horizontal Analysis  
D. None of these

72. वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है

- A. आलोचना एवं विश्लेषण  
B. तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन  
C. निष्कर्ष निकालना  
D. इनमें से सभी

Interpretation of Financial statements includes :

- A. Criticism and Analysis  
B. Comparison and Trend study  
C. Drawing conclusion  
D. All of these

73. सम-विच्छेद बिन्दु, उस बिन्दु को कहते हैं, जहाँ

- A. कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो
- B. कुल लागत कुल बिक्री से कम हो
- C. कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो
- D. कुल लागत कुल बिक्री से बराबर हो

Break-even point refers to that point where :

- A. Total costs are more than total sales
- B. Total costs are less than total sales
- C. Total costs are half of the total sales
- D. Total costs are equal to total sales

74. वित्तीय विश्लेषण के लिये उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है

- A. तुलनात्मक विवरण
- B. सामान्य-आकार विवरण
- C. लेखांकन अनुपात
- D. उपर्युक्त सभी

The most commonly used tool for financial analysis are :

- A. Comparative Statement
- B. Common-size statement
- C. Accounting Ratio
- D. All of the above

75. समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है :

- A. गतिशील विश्लेषण
- B. क्षैतिज/समानान्तर विश्लेषण
- C. लम्बवत्/शीर्ष विश्लेषण
- D. बाह्य विश्लेषण

Commonsize statement are also known as :

A. Dynamic Analysis B. Horizontal/Parallel Analysis

C. Vertical Analysis D. External Analysis

76. आयकर का भुगतान माना जाता है :

A. प्रत्यक्ष व्यय B. अप्रत्यक्ष व्यय

C. संचालन व्यय D. इनमें से कोई नहीं

Payment of Income Tax is considered as :

A. Direct Expenses B. Indirect Expenses

C. Operating Expenses D. None of these

77. सामान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल समता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है :

A. 1000 B. 100

C. 10 D. 1

In a common size Balance Sheet, total equity and liabilities are assumed to be equal to

A. 1000 B. 100

C. 10 D. 1

78. शीर्ष/उदग्र विश्लेषण जाना जाता है :

A. स्थैतिक विश्लेषण B. गतिशील विश्लेषण

C. संरचनात्मक विश्लेषण D. इनमें से कोई नहीं

Vertical Analysis is also known as :

A. Static Analysis B. Dynamic Analysis

C. Structural Analysis D. None of these

79. क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है :

A. गतिशील विश्लेषण B. संरचनात्मक विश्लेषण

C. स्थैतिक विश्लेषण D. इनमें से कोई नहीं

Horizontal Analysis is also known as :

A. Dynamic Analysis B. Structural Analysis

C. Static Analysis D. None of these

80. प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है :

A. आलोचना एवं विश्लेषण B. तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन

C. निष्कर्ष निकालना D. उपरोक्त सभी

Trend analysis includes :

A. Criticism and Analysis

B. Comparison and Trend Study

C. Drawing Conclusion

D. All of the above

81. एक कम्पनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिये कौन-सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है ?

- A. लाभदायकता अनुपात  
B. ऋण-समता अनुपात  
C. स्टॉक आवर्त अनुपात  
D. चालू अनुपात

Which one of the following ratios is most important in determining the long-term solvency of a company ?

- A. Profitability Ratio  
B. Debt-Equity Ratio  
C. Stock Turnover Ratio  
D. Current Ratio

82. ऋण-समता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है :

- A. दीर्घकालीन ऋण / अंशधारियों का कोष  
B. ऋण पत्र / समता पूँजी  
C. शुद्ध लाभ / कुल पूँजी  
D. इनमें से कोई नहीं

The formula for finding out Debt-Equity Ratio is

- A. Long-term Debts/Shareholder's Funds  
B. Debentures / Equity capital  
C. Net profit / Total capital  
D. None of these

83. निम्नलिखित में कौन-सी तरल सम्पत्ति है ?

- A. भूमि  
B. रहतिया



C. भवन D. देनदार

Which of the following is liquid asset ?

A. Land B. Stock

C. Building D. Debtors

84. चालू अनुपात है :-

A. चालू संपत्तियाँ / चालू दायित्व B. तरल संपत्तियाँ / चालू संपत्तियाँ

C. तरल संपत्तियाँ / चालू दायित्व D. स्थायी संपत्तियाँ / चालू संपत्तियाँ

Current Raio is :-

A. Current Assets / Current Liabilities

B. Liquid Assets / Current Assets

C. Liquid Assets / Current Liabilities

D. Fixed Assets / Current Assets

85. निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है ?

A. सकल लाभ अनुपात B. शुद्ध लाभ अनुपात

C. चालू अनुपात D. संचालन अनुपात

Which of the following is not a profitability Ratio ?

A. Gross Profit Ratio B. Net Profit Ratio

C. Current Ratio D. Operating Ratio

86. कुल बिक्री ₹3,00,000 प्रारंभिक देनदार ₹25,000 तथा अंतिम देनदार ₹36,000 तो नकद बिक्री होगी ?

A. ₹2,89,000

B. ₹3,17,000

C. ₹3,25,000

D. इनमें से कोई नहीं

Total sales ₹3,00,000, Debtors at the beginning ₹25,000 and closing Debtors ₹36,000. Cash sales will be?

A. ₹2,89,000

B. ₹3,17,000

C. ₹3,25,000

D. None of these

87. चल अनुपात 1 : 2, चल दायित्व ₹25,000 तो चल सम्पत्ति का मूल्य होगा :

A. ₹62,500

B. ₹12,500

C. ₹10,000

D. ₹15,000

Current Ratio is 1 : 2, current liabilities ₹25,000, then the current Assets will be :

A. ₹62,500

B. ₹12,500

C. ₹10,000

D. ₹15,000

88. तरल अनुपात प्राप्त होता है, तरल संपत्ति को भाग देने पर

A. दीर्घकालीन दायित्व से

B. चल दायित्वों से

C. केवल लेनदारों से

D. इनमें से कोई नहीं

Liquid ratio is derived by dividing quick assets by

A. Long term liabilities

B. Current liabilities

C. Creditors only

D. None of these

89. एक कम्पनी की मूर्त सम्पत्तियाँ ₹4,00,000 से बढ़कर ₹5,00,000 हो गयी। इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ?

A. 20%

B. 25%

C. 33%

D. 50%

Tangible assets of a company increased from ₹4,00,000 to ₹5,00,000. What is the percentage of change ?

A. 20%

B. 25%

C. 33%

D. 50%

90. सम्पत्तियों का खाता है :

A. व्यक्तिगत खाता

B. नाममात्र खाता

C. वास्तविक खाता

D. इनमें से कोई नहीं

Assets Account is :

A. Personal Account

B. Nominal Account

C. Real Account

D. None of these

91. रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है :

A. लेखांकन के रोकड़ आधार पर

B. लेखांकन के उपार्जन आधार पर

C. A और B दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

Cash Flow statement is based upon :

- A. Cash basis of accounting                      B. Accrual basis of accounting  
C. A and B both                                      D. None of these

92. निम्न में से कौन एक रोकड़ मद है ?

- A. नकद विक्रय                                      B. ख्याति का अपलेखन  
C. ह्रास    D. अप्राप्य ऋणों के लिये प्रावधान

Which one of the following is a cash item ?

- A. Cash sales                                      B. Goodwill written off  
C. Depreciation                                      D. Provision for Bad Debts

93. रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है :

- A. आर्थिक चिट्ठा से                              B. लाभ—हानि खाता से  
C. अतिरिक्त सूचनाओं से                      D. इनमें से सभी

Cash Flow statement is prepared from :

- A. Balance Sheet                              B. Profit & Loss Account  
C. Additional Information                      D. All of these

94. आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है

- A. संचालन क्रिया के रूप में                      B. निवेश क्रिया के रूप में  
C. वित्तीय क्रिया के रूप में                      D. इनमें से कोई नहीं

Payment of Income Tax is classified as :

- A. Operating Activities                      B. Investing Activities

C. Financial Activities

D. None of these

95. संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जायेगा?

A. ब्याज प्राप्त किया

B. संपत्ति के विक्रय पर लाभ

C. सामान्य संचय में वृद्धि

D. कर की वापसी

While calculating operating profit, which will be added to net profit?

A. Interest received

B. Profit on sale of Asset

C. Increase in General Reserve

D. Refund of Tax

96. निम्न में से संचालन संबन्धी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन-सा है ?

A. मशीनरी का क्रय

B. अंशों का निर्गमन

C. स्टॉक का नकद क्रय

D. विनियोगों का क्रय

Which of the following is an example of cash flow from operating Activities ?

A. Purchase of Machinery

B. Issue of shares

C. Cash purchase of Inventory

D. Purchase of Investments

97. आयकर की वापसी रोकड़ का ..... है

A. स्रोत

B. प्रयोग

C. दोनों A और B

D. इनमें से कोई नहीं

Income tax refund is a ..... of cash

A. Source

B. Application

C. Both A & B

D. None of these

98. रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष का व्यवहार कैसे लिखेंगे ?

A. संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह

B. विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह

C. वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह

D. रोकड़ समतुल्य

How will you treat Bank overdraft in cash flow statement?

A. Cash Flow from operating Activities

B. Cash Flow from Investing Activities

C. Cash Flow from Financing Activities

D. Cash Equivalent

99. निवेश क्रियाओं से रोकड़-प्रवाह का उदाहरण है

A. अंशो का निर्ममन

B. दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान

C. कच्चे माल का नकद क्रय

D. गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय

An example of cash flow from investing activities is :

A. Issue of shares

B. Repayment of long-term loans

C. Purchase of raw materials for cash

D. Sale of Investment by non-financial organisation

100. निम्न में से कौन सा मद रोकड़ समतुल्य है ?

- A. ट्रेजरी बिल  
B. व्यापारिक बिल  
C. तरल अल्पकालीन निवेश  
D. उपरोक्त सभी

Which of the following is considered as cash Equivalent ?

- A. Treasury Bill  
B. Trade Bill  
C. Liquid short term Investment  
D. All of the above

**खण्ड-ब / Section-B**

**गैर-वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Non-Objective Type Questions**

**लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions**

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। (15x2=30)

Question no. 1 to 30 are Short answer type. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks. (15x2=30)

1. प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय-व्यय खाते में दो अंतर बताइए। 2

Give two points of distinction between Receipts and Payments account and Income and Expenditure account.

2. पूँजी कोश क्या है? 2

What is a capital fund?

3. साझेदारी के आवश्यक तत्व बताइए। 2

Enumerate the essential elements of partnership.

4. सझेदारी से क्या आशय है? 2
- What is meant by Partnership?**
5. सझेदारी संलेख के न होने की स्थिति में साझेदारी अधिनियम के किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख करें। 2
- Mention any two provisions of partnership Act in the absence of Partnership deed.**
6. ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के नाम बतायें।
- Enumerate the names of methods of valuation of goodwill.**
7. अधिलाभ का क्या अर्थ है?
- What is meant by super profit?**
8. दो परिस्थितियाँ बतलायें जिसमें सामान्यतः ख्याति के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है।
- Give two circumstances in which adjustment of goodwill is usually required.**
9. पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है ?
- What is Revaluation Account ?**
10. अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को किये जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- Describe the process of payment of amount due to a retiring partner.**
11. लाभ-प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं ?
- What do you mean by gaining ratio ?**



12. प्राप्त लाभ अनुपात और त्याग अनुपात में दो अंतर बतायें।  
Give two points of differences between gaining ratio and sacrificing ratio.
13. 'प्रविवरण' शब्द को स्पष्ट करें।  
Explain the term 'Prospectus'.
14. अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम के क्या लाभ हैं ?  
What are the advantages of premium received on issue of shares?
15. प्रीमियम पर ऋण-पत्रों के निर्गमन का क्या तात्पर्य है ?  
What is meant by issue of debentures at premium ?
16. बट्टे पर ऋण पत्रों के निर्गमन का क्या आशय है?  
What is meant by issue of debentures on discount ?
17. ऋण-पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को बताइये।  
Enumerate the various methods of redemption of debentures.
18. परिवर्तन द्वारा ऋण-पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं ?  
What do you mean by redemption of debentures by conversion?
19. वित्तीय विवरणों के तत्व क्या हैं?  
What are the element of financial statements ?
20. एक कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी जाने वाली किन्हीं तीन मदों का नाम बतायें।  
Name any three items which are shown under 'Miscellaneous Expenditure' of assets side of a company's Balance sheet.
21. वित्तीय विश्लेषण के क्या उपकरण हैं ?

What are the tools for Financial Analysis ?

22. तुलनात्मक आय विवरण से क्या आशय है ?

What is meant by comparative Income Statement.

23. तुलनात्मक वित्तीय विवरण के दो लाभ बताइए।

Give two advantages of comparative Financial Statements.

24. लाभदायकता अनुपात क्या है ? स्पष्ट करें।

What is profitability Ratio ? Explain.

25. अनुपात विश्लेषण की सीमाओं की विवेचना कीजिये।

Discuss the limitations of Ratio Analysis.

26. स्टॉक आवर्त अनुपात का वर्णन कीजिए।

Discuss Inventory Turnover Ratio.

27. रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

Explain the objectives of preparing cash flow statement.

28. आय विवरण क्या है ?

What is an Income Statement ?

29. अनुपात विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

Explain the various objectives of Ratio Analysis.

30. संचालन क्रियायें क्या हैं ?

What are the operating Activities ?

### **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)**

प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

(4x5=20)

Question no. 31 to 38 are Long answer type. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks. (4x5=20)

31. निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय-व्यय खाता बनाइये :

शुल्क संग्रह किया	3,00,000
वेतन दिया	2,00,000
टूर्नामेण्ट व्यय	16,000
यात्रा व्यय	17,000
लेखन सामग्री व्यय	12,000
किराया दिया	10,000
डाक तथा टेलीफोन व्यय	8,000
पुस्तकों का क्रय	18,000

From the following informations, prepare the Income and Expenditure Account for the year ending 31<sup>st</sup> March 2019 :

Fees collected	3,00,000
Salary paid	2,00,000
Tournament expenses	16,000
Travelling Expenses	17,000
Stationary Expenses	12,000
Rent paid	10,000
Postage and Telephone expenses	8,000
Purchase of Books	18,000

32. ख्याति से क्या आशय है ? ख्याति की गणना करने की विभिन्न विधियाँ क्या है ?

What is meant by Goodwill? What are the different methods of calculation of Goodwill ?

33. पी० लि० ने प्रत्येक 10 रू० वाले 900 समता अंशों को जिन्हे 10 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित किया गया था, अंतिम याचना के 2 रू० प्रति अंश की दर से भुगतान न होने पर, जब्त कर लिया। इन अंशों को 13 रू० प्रति अंश की दर से पूर्ण प्रदत्त रूप में निर्गमित किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये।

P, Ltd. forfeited 900 equity shares of Rs. 10 each issued at a discount of 10% for the non-payment of final call of Rs. 2 per share. These shares were reissued at Rs. 13 per share as fully paid. Pass necessary Journal entries.

34. ऋण—पत्रों के शोधन सम्बन्धी लेखीय प्रविष्टियों को कीजिए।

Mention the accounting entries relating to redemption of debentures.

35. निम्न सूचना से एक तुलनात्मक आय विवरण तैयार किजिए :

विवरण	2018	2019
सकल बिक्री	1,20,000	1,35,800
विक्रय वापसी	5,200	3,800
बेचे गये माल की लागत	80,000	84,000
परिचालन व्यय	12,000	9,000
आय—कर	50 %	50 %

Prepare a comparative Income statement from the following information :

Particulars	2018	2019
	₹	₹
Gross Sales	1,20,000	1,35,800
Sales Returns	5,200	3,800
Cost of Good Sold	80,000	84,000
Operating Expenses	12,000	9,000
Income Tax	50 %	50 %

36. अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों को उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें।

What do you mean by Ratio Analysis? Explain briefly the different methods of ratio analysis with suitable examples.

37. निम्न सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए :

	₹
प्रारंभिक रोकड़ शेष	30,000
अंतिम रोकड़ शेष	20,000
देनदारों की कमी	5,000
देनदारों की वृद्धि	10,000
शेयरों का निर्गमन	50,000
ऋण पत्रों का शोधन	30,000
वर्ष के लिये शुद्ध लाभ	40,000

भवन का क्रय 15,000

From the following information, Prepare a Cash Flow statement:

	₹
Opening Cash Balance	30,000
Closing Cash Balance	20,000
Decrease in Debtors	5,000
Increase in Debtors	10,000
Issue of shares	50,000
Redemption of Debentures	30,000
Net Profit for the year	40,000
Purchases of Building	15,000

38. साझेदारी फर्म के विघटन पर हिसाब-किताब निपटाने के संबंध में कानूनी प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।

Explain the legal provisions for the settlement of books on dissolution of partnership firm.